



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 71
No. 71

नई दिल्ली, जून 14—जून 20, 2009, शनिवार/शुक्र 24—शुक्र 30, 1931
NEW DELHI, JUNE 14—JUNE 20, 2009, SATURDAY/JYAISTHA 24—JYAISTHA 30, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 5 जून, 2009

का.नि.आ. 13.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेना इंजीनियर सेवा, वास्तुविद् काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना इंजीनियर सेवा, वास्तुविद् काडर (समूह 'क' पद), भर्ती संशोधन नियम, 2009 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. (1) सेना इंजीनियर सेवा, वास्तुविद् काडर (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2006 की अनुसूची के स्तंभ 12 में वास्तुविद् के पद से संबंधित क्रम संख्यांक 4 पर निम्नलिखित टिप्पण विद्यमान "टिप्पण 1" से पहले अन्तः स्थापित किया जाएगा।

"टिप्पण 1 : का. नि. आ. 66 तारीख 16 मई, 2006 के प्रख्यापन की तारीख को नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्त किए गए सहायक वास्तुविद् श्रेणी-2, सहायक वास्तुविद् श्रेणी-1 और सहायक वास्तुविद् श्रेणी-2 में 8 वर्ष की सम्मिलित सेवा जिसमें से सहायक वास्तुविद् श्रेणी-2 की श्रेणी में न्यूनतम 3 वर्ष की नियमित सेवा लागू होगी "

- (2) विद्यमान "टिप्पण" को "टिप्पण 2" के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा।

[85604/4/आर्ककाडर/आरआर/सीएससीसी/120/09/र(नि.)]

एस. एस. एस. सम्रा, अवर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 4 में सा. का. नि. 66, तारीख 16 मई, 2006 द्वारा 3 जून, 2006 को प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 5th June, 2009

S.R.O. 13.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules to amend the Military Engineer Services, Architect Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2006, namely :—

1. (1) These rules may be called the Military Engineer Services, Architect Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (i) In the Schedule to Military Engineer Services, Architect Cadre (Group 'A' posts), Recruitment Rules, 2006, at serial number 4, relating to the post of Architect, in Column 12, the following "Note 1" shall be inserted before the existing "Note".

"Note 1: Assistant Architect Grade-II appointed to the post on regular basis as on the date of the promulgation of S.R.O. 66 dated 16th May, 2006, 8 years combined regular service in the grades of Assistant Architect Grade-I and Assistant Architect Grade-II out of which minimum 3 years regular service in the grade of Assistant Architect Grade-II shall be applicable."

(ii) The existing "Note" shall be renumbered as "Note 2"

[85604/4/Arch Cadre/RR/CSCC/120/2009/D (Appts)]

S. S. S. SARMA, Under Secy.

Note :—The Principal Rules were published in the Gazette of India Part II, Section 4, on the 3rd June, 2006 *vide* number S.R.O. 66 dated the 16th May, 2006.